



बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 21/2015-16

1. परिचयात्मक –

- (क) अंकेक्षित लेखा का नाम – पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूर्णियाँ (राजस्व लेखा प्राप्ति का अंकेक्षण)
- (ख) अंकेक्षणाधीन लेखावधि – वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक।
- (ग) प्रशासी विभाग का नाम – गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
- (घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –
पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ (नाम एवं कार्यकाल अप्राप्त)।
- (ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम

पदनाम एवं कार्यकाल :-

- (i) श्री एस० एस० रंजन,
पुलिस अधीक्षक, – दि०-1.4.97 से 28.7.97 तक
- (ii) श्री ए० के० सिंह,
पुलिस अधीक्षक – दि०-28.7.97 से 15.6.98 तक
- (iii) श्री आर० एस० भट्ट
पुलिस अधीक्षक – दि०-15.6.98 से 28.4.99 तक
- (iv) श्री एम० एस० मजीद
पुलिस अधीक्षक – दि०-28.4.99 से 17.1.2000 तक
- (v) श्री आर० एन० प्रसाद
पुलिस अधीक्षक – दि०-17.1.2000 से 9.6.2000 तक

- (vi) श्री वी० श्रीनिवासन
पुलिस अधीक्षक — दि०—10.6.2000 से 24.9.2000 तक
- (vii) श्री ए० चौधरी
पुलिस अधीक्षक — दि०—24.9.2000 से 22.11.2000 तक
- (viii) श्री के० सी० सुरेन्द्रवावू
पुलिस अधीक्षक — दि०—28.11.2000 से 10.10.02 तक
- (ix) श्री ए० के० वर्मा
पुलिस अधीक्षक — दि०—12.10.02 से 22.11.03 तक
- (x) श्री के० के० वर्मा
पुलिस अधीक्षक — दि०—23.12.03 से 10.12.04 तक
- (xi) श्री सुधांशु कुमार
पुलिस अधीक्षक — दि०—10.12.04 से 31.3.08 तक
- (xii) श्री वी० एस० मीणा
पुलिस अधीक्षक — दि०—1.4.08 से 21.12.08 तक
- (xiii) श्री नय्यर एच० खान
पुलिस अधीक्षक — दि०—22.12.08 से 25.2.10 तक
- (xiv) श्री उमाशंकर सुधांशु
पुलिस अधीक्षक — दि०—26.2.10 से 18.3.10 तक
- (xv) श्री नय्यर एच० खान
पुलिस अधीक्षक — दि०—19.3.10 से 16.2.11 तक
- (xvi) श्री अमित लोढा
पुलिस अधीक्षक — दि०—16.2.11 से 29.3.13 तक

(xvii) श्रीमती किम, पुलिस अधीक्षक

29.3.13 से 24.11.13 तक

(II) पुलिस उपाधीक्षक —

1. श्री परमेश्वर पासवान, आरक्षी उपाधीक्षक, पूर्णियाँ, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
दि० — 1.4.1997 से 2.11.98 तक।
2. श्री अनिरुद्ध प्र० सिन्हा, „
दि० — 3.11.98 से 26.9.03 तक।
3. „ विनोदानन्द झा, „
दि० — 27.9.03 से 3.4.08 तक।
4. „ शंभू शंकर ठाकुर, „
दि० — 4.4.08 से 2.6.10 तक
5. „ विनोद कुमार, „
दि० — 3.6.10 से 16.7.12 तक
6. „ अमित लोढा, आ०अ० „
दि० — 17.7.12 से 30.7.12 तक।
7. „ सतीश कुमार, आ० उपा० „
दि० — 31.7.12 से 14.9.12 तक
8. „ अजय कुमार पांडेय, वनमनखी,
दि० — 15.9.12 से 6.2.13 तक
9. „ रमण कुमार चौधरी
अनु० पु० पदा०, वायसी —
दि० — 7.2.13 से 31.3.13 तक।

(iii) प्रधान लिपिक –

(1)	श्री वुद्धेश चन्द्र घोष, प्रधान लिपिक	–	1.4.97 से 30.9.97
(2)	.. मुकुन्द मुरारी दास ..	–	1.10.97 से 5.09.2001
(3)	.. चन्देश्वर प्र० शर्मा ..	–	6.9.01 से 31.7.02
(4)	.. मुकुन्द मुरारी दास ..	–	1.8.02 से 8.8.02
(5)	.. सत्य नारायण साह ..	–	9.8.02 से 31.12.10
(6)	.. मो० अली अख्तर ..	–	1.1.11 से 31.1.11
(7)	.. लक्ष्मी प्र० वर्मा ..	–	1.2.11 से 29.12.11 तक
(8)	.. अनिल कुमार ..	–	30.12.11 से 31.7.12 तक
(9)	.. मो० अली अख्तर ..	–	1.8.12 से 31.3.13 तक।

(iv) लेखापाल –

(1)	.. सुकुमार दास, लेखापाल	–	1.4.97 से 27.1.99
(2)	.. सत्य ना० साह, ..	–	28.1.99 से 18.10.01
(3)	.. मुकुन्द मुरारी दास, ..	–	19.10.01 से 31.07.02
(4)	.. चन्देश्वर प्र० शर्मा ..	–	1.8.02 से 27.10.08
(5)	.. मो० अली अख्तर ..	–	28.10.08 से 31.12.10
(6)	.. अनिल कुमार ..	–	1.11.11 से 31.1.11
(7)	.. मो० अली अख्तर ..	–	1.2.11 से 2.11.11
(8)	.. श्री सिंहासन पासवान, लेखापाल	–	3.11.11 से 31.7.12 तक
(9)	.. अनिल कुमार ..	–	1.8.12 से 31.3.13 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

(क) श्री अजीत कुमार सत्यार्थी, पुलिस अधीक्षक

(ख) .. निशांत कुमार तिवारी ..

- (ग) „ सकलदीप सिंह, प्रधान लिपिक
- (घ) „ मनोज कुमार उपाध्याय लेखापाल
- (ङ) „ आशीष कुमार झा, लिपिक

(छ) अंकेशकों का नाम :-

- (i) श्री दिलीप कुमार गुप्ता, व0अं0-1 दल प्रभारी
- (ii) „ ब्रजभूषण सिंह, व0अं0-2 दलसदस्य
- (iii) „ अजय कुमार, „ -2 दलसदस्य

(ज) अंकेशन प्रारंभण तिथि - 26.2.2014 / 19.7.14 / 11.4.15

(झ) अंकेशन समापन तिथि - 26.5.2015

(ञ) अंकेशन में व्यतीत कार्य दिवस - $33\frac{1}{3}$ कार्य दिवस

(ट) अंकेशन में प्रस्तुत/अप्रस्तुत

अभिलेखों की सूची - अं0 प्र0 के परिशिष्ट - “क” अंकित है।

(ठ) अंकेशन का क्षेत्र -

जिला पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के लेखाभिलेखों का अंकेशन वित्त (अंकेशन) विभागीय ज्ञापांक - 3286 दिनांक-15.9.1960 एवं पुलिस, महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना के पत्रांक-4897 दिनांक- 25.10.13 द्वारा अभियाचित तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक-22.1.2014 सह पठित ज्ञाप संख्या 6 दिनांक-22.1.2014 में संकलित निदेशानुसार वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक के प्रस्तुत मनी रसीद, रोकड़ पंजी, रेमीटेंस पंजी, जमा राशि से संबंधित चालान की कार्यालय प्रति आदि के आधार पर सम्पन्न किया गया।

इस कार्यालय को मुख्य तथा चार स्त्रोतों यथा (1) अंगरक्षक मुहैया कराने से (2) सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने (3) नीलामी द्वारा तथा (4) दखल दहानी से राजस्व की प्राप्ति होती है और उक्त राशि को चालान के माध्यम से कोषागार में ससमय जमा कर दी जाती है।

महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा उक्त कार्यालय के राजस्व प्राप्ति से संबंधित अंकेशन प्रतिवेदन अंकेशन में उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्त (अंकेशन) विभाग का राजस्व प्राप्ति से संबंधित यह प्रथम अंकेशन था।

(ड) वित्तीय समीक्षा :-

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूर्णियाँ का अंकेक्षण हेतु आंवटित लेखावधि वर्ष-1997-98 से 2012-13 तक अंगरक्षक, सुरक्षागार्ड, नीलामी तथा दखल दहानी से प्राप्त राजस्व से संबंधित आय-व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य है। प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा की वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक विभिन्न मदों से जो आय स्वरूप राशि प्राप्त हुई उसे उसी संबंधित वर्ष में ही कोषागार में जमा किया पाया गया जिसका सत्यापन शत-प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। अंकेक्षण क्रम में पुलिस वल प्रतिनियुक्ति पंजी वर्ष 1997-98 से 04-05 एवं 08-09 से 12-13 जिला सुरक्षा समिति की संचिका वर्ष 97-98 से 01-02 उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में वास्तविक प्रतिनियुक्ति प्राप्त राजस्व होने योग्य राशि ज्ञात नहीं किया जा सका।

अतः प्रशासी विभाग को सुझाव दिया जाता है कि उक्त अवधि में वास्तविक प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त होने योग्य राजस्व राशि की गणनाकर तथा परिशिष्ट "ख" में जमा राशि को घटाते हुए शेष राजस्व राशि की वसूली कर ली जाए तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

अंकेक्षण क्रम में अभिलेखों की याचना स्वरूप आपत्ति दी गई जिसके अनुपालन में अभिलेखों का उपस्थापन ससमय एवं सही ढंग से नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण में काफी कठिनाई हुई।

(1) भौतिक सत्यापन :-

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक-503 दिनांक-29.01.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 26.2.2014 के संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन संबंधित पदाधिकारी द्वारा अंकेक्षण के समक्ष किया जाना था किन्तु केवल राजस्व प्राप्ति एवं जमा राशि का अंकेक्षण किये जाने के कारण ऐसा नहीं किया गया। राजस्व प्राप्ति से संबंधित अलग से कोई रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया था।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूर्णियाँ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त वलों का पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य है।

उक्त विवरणी से स्पष्ट होगा कि अधिकांश पदों पर स्वीकृत पद से कार्यरत बल काफी कम है जिसके फलस्वरूप कार्यालय कार्य एवं प्रशासनिक कार्य को सुचारु रूप से चालाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उन रिक्त पदों को भरने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भाग – II

- (5) निजी व्यक्तियों को अंगरक्षक प्रदान करने के बदले बकाया वसूली योग्य राशि रु0 38,12,871.00 की वसूली नहीं राजस्व की क्षति :-

राजस्व प्राप्ति राशि एवं प्राइवेट पार्टी की संचिका एवं उपलब्ध कराई गई विवरणी के पारस्परिक जाँच एवं सत्यापन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2002-03 से 2005-06 में कुछ गणमान्य/निजी व्यक्तियों को अंगरक्षक की सुविधा प्रदान की गयी थी परन्तु उनलोगों से अंकेक्षण समापन तिथि रु0 38,12,871.00 की वसूली नहीं की गयी थी। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कार्यालय द्वारा बताया गया कि संबंधित व्यक्तियों से उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

इस प्रकार कुल राशि रूपयें 38,12,871.00 संबंधित व्यक्तियों से अबिलम्ब वसूल कर कोषागार में सम्बंधित शीर्षान्तर्गत जमा कराने के उपरान्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

- (6) निर्धारित दर से कम दर पर वसूली गई राशि रु0 7,29,696.00 वसूली योग्य।

गणमान्य/निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को उलब्ध कराये गये अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड आदि से संबंधित संचिका एवं राजस्व रसीद (आर0सी0) की पारस्परिक जाँच एवं सत्यापन वर्ष 06-07 से 12-13 के क्रम में पाया गया कि अंगरक्षकों/सुरक्षावलो की प्रतिनियुक्ति हेतु गृह आरक्षी विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित दर से शुल्क वसूल न कर कम दर पर वसूल किया गया था जिसके फलस्वरूप सरकार को कुल राशि रु0 7,29,696.00 के राजस्व की क्षति हुई। पूर्ण विवरण अं0 प्र0 के परिशिष्ट "उ0" पर द्रष्टव्य है।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कार्यालय द्वारा बताया गया कि सत्यापनोपरांत राशि की वसूली की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त विहित दर से कम दर पर वसूली की अंतर राशि संबंधित दोषी/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर सम्बंधित शीर्षान्तर्गत कोषागार में अबिलम्ब जमा किया जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

- (7) अंगरक्षक/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप कम वसूली गयी राशि रु0 2,31,540.00 वसूली योग्य।

प्राइवेट पार्टी को उपलब्ध कराये गये अंगरक्षक से संबंधित संचिका एवं राजस्व प्राप्ति रसीद की पारस्परिक जाँच एवं सत्यापन के क्रम में पाया गया कि श्री आशीष कुमार सिन्हा, निदेशक, पूजा एग्रो फूड, मरंगा, पूर्णियाँ के पास दिनांक-9.1.04 से 16.4.04, दि0-11.1.06 से

11.4.16 तथा 19.4.06 से 4.7.06 तक अंगरक्षक/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप निर्धारित शुल्क के रूप में कुल राशि रू0 2,31,540.00 की वसूली करनी थी जिसे श्री सिन्हा द्वारा राशि जमा नहीं की गई

अधीक्षक कार्यालय द्वारा राशि जमा करने हेतु पत्राचार किया गया किन्तु राशि जमा नहीं किये जाने पर उक्त राशि हेतु उनपर सर्टीफिकेट केस परिचारी प्रवर के ज्ञापांक-233 दि0-23.01.2014 किया गया। परन्तु अंकेक्षण तिथि तथा राशि जमा नहीं पायी गयी।

साथ ही प्रश्न यह उठता है कि जब शुल्क की राशि पहले जमा करवाकर तदोपरान्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो फिर ऐसा क्यों किया गया उच्चाधिकारियों का ध्यान इस बिन्दु पर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उच्च पदाधिकारी का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट किया जाता है कि कम वसूल की गयी राशि सम्बंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

भाग - 3

(8) सामान्य अभ्युक्तियों :-

- (i) बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86 (iv) के आलोक में प्रत्येक माहांत में संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना है एवं इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी अंकित करना है किन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ऐसा किया नहीं पाया गया। भविष्य में इस ओर ध्यान देना अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व रसीद जो शुल्क वसूली हेतु निर्गत की जाती है उसमें पुलिस बल की संख्या एवं प्रतिनियुक्ति अवधि एवं वसूली की दर अंकित नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण को काफी कठिनाई हुई।

अतः अंकेक्षण का विशेष रूप से सुझाव है कि राजस्व रसीद निर्गत करने के वक्त प्रतिनियुक्त पुलिस बलों की संख्या प्रतिनियुक्ति को अवधि (कब से कब तक) एवं प्रतिनियुक्ति शुल्क किस दर से लिया गया का स्पष्ट विवरण अंकित करने की ओर लेखापाल प्रधान लिपिक एवं पुलिस अधीक्षक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

- (iii) कार्यालय में अभिलेखों के रख रखाव की स्थिति काफी दयनीय पायी गयी। अंकेक्षण में अभिलेखों के उपस्थापन में कार्यालय द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण में काफी कठिनाई हुई एवं वक्त की बर्बादी हुई।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

- (iv) दिवा कार्यालय में भी अभिलेखों का रख रखाव विल्कुल खराब था अभियाचित अभिलेखों को उपस्थापित करने में काफी उपेक्षा बरती गयी जिससे अंकक्षण का काफी समय वर्वाद हुआ।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

- (v) आरक्षी द्वारा जिन अभिलेखों का संधारण किया जाता है स्थानान्तरित होने पर प्रभार का आदान-प्रदान नहीं होता है जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया। यह सरकारी नियम के प्रतिकूल है।

उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

Qanda
18/02/16

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का हस्ताक्षर

1. मो० ओबैदुल्लाह जावेद, व०अ०-2

परिशिष्ट – “क”

(कंडिका-1 ‘ट’ से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

- (1) रोकड़ पुस्त वर्ष 97-98 से 12-13 तक।
- (2) राजस्व प्राप्ति रसीद, ..
- (3) जिला सुरक्षा समिति की संचिका वर्ष – 02-03 से 12-13 (प्राइवेट पार्टी की संचिका)
- (4) रेमीटेंस पंजी वर्ष – 97-98 से 12-13
- (5) कोषागार अभिलेख (जमा) ..
- (6) कार्यालय चालान (जमा) की प्रति ..
- (7) पुलिस बल प्रतिनियुक्ति पंजी वर्ष – 05-06 से 07-08

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

- (1) जिला सुरक्षा समिति की संचिका
(प्राइवेट पार्टी की संचिका) वर्ष – 97-98 से 01-02
- (2) पुलिस बल प्रतिनियुक्ति पंजी 97-98 से 04-05 एवं 08-09 से 12-13 तक।
- (3) कमान पंजी वर्ष – 97-98 से 12-13 तक।

परिशिष्ट – 'ख'कड़िका – 1 (ड) से संबंधितआय –व्यय (जमा) विवरणीवर्ष – 97-98

क्र0	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	8820.00	8820.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	19051.85	19051.85	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	27871.85	27871.85	—	

वर्ष – 98-99

क्र0	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	17934.00	17934.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	44001.00	44001.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	61935.00	61935.00	—	

वर्ष – 99-2000

क्र0	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	30971.00	30971.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	5330.00	5330.00	—	
	कुल योग –	36301.00	36301.00	—	

परिशिष्ट – 'ख'कड़िका – 1 (ड) से संबंधितआय – व्यय (जमा) विवरणीवर्ष – 2000–01

क्र०	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	568032.55	568032.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	236.00	236.00	—	
	कुल योग –	568268.55	5,68,268.55	—	

वर्ष – 2001–02

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	6181.00	6181.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	72918.00	72918.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	720.00	720.00	—	
	कुल योग –	79,819.00	79819.00	—	

वर्ष – 2002–03

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	4,25,028.00	4,25,028.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	4,25,028.00	4,25,028.00	—	

परिशिष्ट – 'ख'कंडिका – 1 (ड) से संबंधितआय – व्यय (जमा) विवरणीवर्ष – 2003–04

क्र०	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	2,52,616.00	252616.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	252616.00	252616.00	—	

वर्ष – 2004–05

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	1,67,962.00	167962.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	167962.00	167962.00	—	

वर्ष – 2005–06

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	—	—	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	524284.00	524284.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	524284.00	524284.00	—	

परिशिष्ट – 'ख'कड़िका – 1 (ड) से संबंधितआय –व्यय (जमा) विवरणीवर्ष – 2006–07

क्र0	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	32085.00	32085.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	393966.00	393966.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	426051.00	426051.00	—	

वर्ष – 2007–08

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	64170.00	64170.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	669169.00	669169.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	7,33,339.00	7,33,339.00	—	

वर्ष – 2008–09

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	203205.00	203205.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	108746.00	108746.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	136500.00	136500.00	—	
	कुल योग –	4,48,451.00	448451.00	—	

परिशिष्ट – 'ख'कंडिका – 1 (ड) से संबंधितआय – व्यय (जमा) विवरणीवर्ष – 2009–10

क्र०	मद का नाम	आय	कोषागार में जमा राशि	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	160425.00	160425.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	285338.00	285338.00		
3.	दखल दिहानी	2142.00	2142.00		
4.	नीलामी	63,600.00	63,600.00		
	कुल योग –	5,11,505.00	5,11,505.00		

वर्ष – 2010–11

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	16250.00	16250.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	829046.00	829046.00	—	
3.	दखल दिहानी	17658.00	17658.00	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	862954.00	862954.00		

वर्ष – 2011–12

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	90967.00	90967.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	572992.00	572992.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	663959.00	663959.00		

वर्ष – 2012-13

1	2	3	4	5	6
1.	अंगरक्षक	4,18,995.00	4,18,995.00	—	
2.	सुरक्षा गार्ड	10,00,737.00	10,00,737.00	—	
3.	दखल दिहानी	—	—	—	
4.	नीलामी	—	—	—	
	कुल योग –	14,19,732.00	14,19,732.00		

परिशिष्ट – 'ग'

कंडिका -1 (ड) से संबंधित।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्णियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त वलों की सूची :-

क्र0	पदों का वर्गीकरण	स्वीकृत वल	कार्यरत वल	रिक्त वल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	पुलिस अधीक्षक	1	1	—	
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	1	1	—	
3.	पुलिस उपाधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदा0	6	4	2	
4.	पुलिस निरीक्षक	9	6	3	
5.	सूवेदार	1	—	1	
6.	परिचारी प्रवर	2	1	1	
7.	परिचारी	5	—	5	
8.	पुलिस अवर निरीक्षक	177	140	37	
9.	सिविल जमादार	16	9	7	
10.	लिपिक	10	6	4	
11.	स0 अ0 नि0	142	106	36	
12.	हवलदार/चालक/आर्मोरर	194	137	57	
13.	सिपाही/चालक/आर्मोटर/अंगरक्षक	961	754	207	
14.	दफ्तरी	1	1	—	
15.	स्वीपर	4	3	1	
16.	रसोइया	7	6	1	
17.	धोबी	3	—	3	
18.	दर्जी	1	—	1	

19.	मोची	1	—	1	
	कुल योग —	1542	1175	367	

परिशिष्ट – “घ”

कंडिका – 5 से संबंधित।

रु० –38,12871.00 की वसूली से संबंधित विवरणी।

क्र० सं०	सामान्य/निजी व्यक्तियों के नाम	अंगरक्षकों के प्रतिनियुक्ति की अवधि	दिनों की संख्या एवं शुल्क दर	वसूली योग्य राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री मधुसूदन ऋषि, गवाह अजीत सरकार हत्या में	आ० 2.2.02 से 31.3.02 आ० 1.4.02 से 12.10.07 आ० 27.10.07 से 25.08.08	58 X 156 325 X 345	9048 <u>802125</u> 811173
2.	डा० ए० के० पाठक, से०नि० चिकित्सा पदा० सिपाही टोला	आ० 20.7.04 से 29.12.04	163 X 345	56235
3.	श्री जय कृष्ण मंडल भू०पू० सासद पूर्णियाँ	आ० 16.06.04 से 31.12.04	199 X 345	68655
4.	श्री रविन्द्र नाथ सिंह गवाह अजीत सरकार हत्या केश में	आ० 29.05.07 से 2.8.07 आ० 17.08.07 से 25.8.08	441 X 345	1,52,145
5.	श्रीमती स्निग्धा मित्रा पति स्व० अशोक मित्रा	आ० 17.08.04 से 12.02.05	180 X 345	62100
6.	श्री मुन्ना, गहना ज्वेलर्स, पूर्णियाँ	आ० 30.01.04 से 1.1.05	337 X 345	1,16,265.00
7.	श्री अफरोज आलम, पूर्व मुखिया बधौली के नगर	आ० 30.6.04 से 30.12.04 आ० 11.02.05 से 11.04.05	244 X 345	84180
8.	श्री कृष्ण कुमार मंडल पूर्व अध्यक्ष, जिला काँग्रेस पूर्णियाँ	आ० 1.5.02 से 26.10.04 आ० 5.2.05 से 11.4.05	976 X 345	336720

9.	श्री सबा जफर, हव0 पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद, पूर्णियाँ	हव0 13.7.01 से 24.7.06	1838 X 359	6,59842
10.	श्री राकेश कु0 सिंह पूर्व जिला प्रमुख शिवसेना पूर्णियाँ	आ0 13.5.04 से 30.12.04	232 X 345	80040
11.	श्री आशीष सिन्हा निदेशक पूजा, एग्रोफूड लि0 मरंगा पूर्णियाँ	आ0 9.1.04 से 16.4.04 आ0 11.1.06 से 11.4.06 आ0 19.7.06 से 4.7.08	541 X 345	186645
12.	श्री शिवचन्द्र झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष	आ0 30.12.03 से 31.12.04	368 X 345	126960
13.	दिलीप कु0 यादव पूर्व विधायक धमदाहा	आ0 1.5.02 से 2.9.03 हव0 31.8.03 से 26.5.05 हव0 20.7.05 से 31.10.05	490 X 345 739 X 359	169050 265301
14.	महेन्द्र ना0 यादव पूर्व राज्य मंत्री कटिहार	आ0 2.1.04 से 31.12.04	365 X 345	125925
15.	शाहीद रजा, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद पूर्णियाँ	आ0 11.7.02 से 3.8.02 आ0 28.9.02 से 30.12.04	849 X 345	292905
16.	मुन्ना कुमार उर्फ मतिउर रहमान पूर्व सदस्य जिला परिषद पूर्णियाँ	आ0 19.6.03 से 30.12.04 आ0 2.2.05 से 15.4.05	634 X 345	218730

योग —

3812871.00

परिशिष्ट – "ड"

कंडिका – "6" से संबंधित।

रु0 7,29,696 की वसूली से संबंधित विवरणी।

क्र0 सं0	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं स्थान	पुलिस बल की संख्या	प्रतिनियुक्ति अवधि	दर	वसूलनीय राशि नई दर से	वसूल की गई राशि	अंतर वसूली योग्य राशि	आर सी0 सं0/ तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक गुलाब बाग, पूर्णियाँ	निरीक्षक –1 अ0 निरीक्षक-1 हवलदार-4 आरक्षी-50	29.8.06 से 31.8.06 तक (तीन दिन)	20311	60933	45050	15883	13 / 26.8.06	
2.	तदैव	तदैव	8.2.10 से 10.2.10 तक (तीन दिन)	20311	60933	45050	15883	5 / 6.2.10	
3.	तदैव	तदैव	4.7.11 से 6.7.11 तक (तीन दिन)	65005	195015	96339	98676	5 / 28.6.11	
4.	तदैव	तदैव	14.9.11 से 16.9.11 तक (तीन दिन)	65005	195015	96639	98376	3 / 10.9.11	
5.	तदैव	हवलदार-1 आरक्षी-3	19.10.11 से 20.10. 11 (2 दिन)	1137 1130	9054	4838	4216	2 / 19.10.11	

6.	तदैव	निरीक्षक-1 अ0 निरीक्षक-2 हवलदार-4 आरक्षी-30	20.12.11 (1 दिन)	1998 1959 1137 1130	44364	25493	18871	3 / 19.12.11	
7.	बाबा कन्सट्रक्शन श्री शंकर झा	आरक्षी-1	मई-11 से जुलाई-11 तक (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	1 / 4.5.11	
8.	तदैव	तदैव	अगस्त-11 से अक्टू-11 तक (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	1 / 6.8.11	
9.	तदैव	तदैव	नव0-11 से जन0-12 तक (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	2 / 4.11.11	
10.	तदैव	तदैव	21.2.12 से 30.4.12 (70 दिन)	1130	79100	54153	24947	2 / 2.2.12	
11.	तदैव	तदैव	मई-12 से जुलाई-12 (92 दिन)	1130	103960	86688	17272	4 / 26.7.12	
12.	तदैव	तदैव	जन0-13 से मार्च-13 (90 दिन)	1130	101700	97520	4180	2 / 14.1.13	

13.	श्रवण कुमार झा शिक्षा नगर, मधुबनी	आरक्षी-1	25 दिन	1130	28250	13550	14700	3/4.5.11	
14.	इंडियन प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन लिमिटेड (श्री राजेश कुमार सिंह)	आरक्षी-1	मई-11 से जुलाई-11 (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	2/4.5.11	
15.	तदैव	तदैव	अगस्त-11 से अक्टूबर-11 (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	1/3.8.11	
16.	तदैव	तदैव	नव0-11 से जन0-12 (92 दिन)	1130	103960	48780	55180	1/4.11.11	
17.	तदैव	तदैव	फर0-12 से मार्च-12 (60 दिन)	1130	67800	36814	30986	1/2.2.12	
18.	तदैव	तदैव	अप्रैल-12 से जून-12 (91 दिन)	1130	102830	62400	40430	1/16.4.12	
19.	तदैव	तदैव	अक्टू0-12 से दिस0-12 (92 दिन)	1130	103960	96368	7592	2/10.11.12	

20.	तदैव	तदैव	जन0-13 से मार्च-13 (90 दिन)	1130	101700	97520	4180	2 / 14.1.13	
21.	भारतीय स्टेट बैंक गुलाबबाग पूर्णियाँ	निरीक्षक-1 अ0 निरीक्षक-2 हवलदार-4 आरक्षी-50	1 दिन	1998 1959 1137 1130	66964	64540	2424	4 / 20.2.13	
					1945338	1215642	729696		